

गवाह सहायता सेवा

हम आपकी सहायता कर सकते हैं



OFFICE of
PUBLIC PROSECUTIONS
VICTORIA

गवाह सहायता सेवा

हम कौन हैं

- Witness Assistance Service, Office of Public Prosecutions (OPP) का एक भाग है। OPP विक्टोरिया में गंभीर अपराध के लिए मुकदमा चलाता है
- हम अदालत की प्रक्रिया के दौरान पीड़ितों और गवाहों की सहायता करते हैं
- हम व्यावसायिक रूप से योग्य कर्मचारियों वाली एक विशेषज्ञ सेवा हैं, जो आपराधिक न्याय प्रक्रिया को समझते हैं
- हम गवाह संरक्षण नहीं हैं, लेकिन हम आपको प्रमाण देने के लिए व्यवस्था करने में मदद करेंगे और अदालत के लिए जाते समय अपनी सुरक्षा के बारे में आपकी किसी भी चिंता को संबोधित करेंगे।

हम क्या करते हैं

- हम गंभीर अपराध के वयस्क पीड़ितों और गवाहों को जानकारी और समर्थन प्रदान करते हैं
- हम अभियोजन टीम का एक भाग हैं, जिसमें पुलिस, OPP वकील और क्राउन अभियोजक (जो अदालत में मामला प्रस्तुत करता है) शामिल हैं
- हम प्रियजनों की मृत्यु के शोक से ग्रस्त व्यक्तियों, यौन उत्पीड़न के पीड़ितों और गवाहों और पारिवारिक हिंसा के मामलों तथा कमजोर पीड़ितों के लिए सहायता और समर्थन उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देते हैं
- हम आपके साथ आपके बयान या सबूत पर चर्चा करने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन हम सबूत देने की प्रक्रिया में आपको समर्थन देंगे।

हम क्या सेवा प्रदान करते हैं

हम आपको निम्नलिखित के बारे में जानकारी दे सकते हैं:

- अदालत की प्रक्रिया
- अदालत की प्रक्रिया के संबंध में आपके अधिकार और हक
- मामले की स्थिति और अदालत की सुनवाई तिथियाँ
- यदि आप प्रमाण दे रहे/रही हैं, तो आपकी भूमिका, और आपको अदालत की प्रक्रिया के दौरान क्या उम्मीद करनी चाहिए
- अपना पीड़ित प्रभाव वक्तव्य पूरा करना
- Victims of Crime Assistance Tribunal, Victims' Register और Adult Parole Board के समक्ष प्रस्तुतिकरण करना।

हम:

- आपको आवश्यकता पड़ने पर समर्थन और सहायता प्रदान कर सकते हैं
- अदालत की महत्वपूर्ण सुनवाई से पहले आपके साथ मुलाकात कर सकते हैं और इस समय के दौरान आपको समर्थन दे सकते हैं, खासकर यदि आप आप चिंतित महसूस कर रहे/रही हों
- आपको अदालत के एक दौरे पर ले जा सकते हैं जहाँ आपके मामले की सुनवाई होगी, और अदालत के कर्मचारियों की विभिन्न भूमिकाओं के बारे में समझा सकते हैं
- अदालत की प्रक्रिया के बारे में आपके किन्हीं सवालों का जवाब दे सकते हैं
- अदालत में होते समय या प्रमाण देते समय यदि आपको अपनी सुरक्षा के बारे में कोई भी चिंताएँ हैं, तो उन पर चर्चा कर सकते हैं
- अदालत की सुनवाई के बाद आपको संक्षेप में समझा सकते हैं
- आपके लिए एक दुभाषिया उपलब्ध कराने के लिए OPP वकील के साथ व्यवस्था कर सकते हैं
- अतिरिक्त सहायता के लिए आपको अन्य एजेंसियों के प्रति निर्दिष्ट कर सकते हैं।

संपर्क जानकारी

टे (03) 9603 7425

टे 1800 641 927 ग्रामीण क्षेत्रों
से कॉल करने वालों के लिए

ई was@opp.vic.gov.au

www.opp.vic.gov.au

